

# Vaswani Industries Limited

POWER • SPONGE IRON • STEEL
• CIN - L28939CT2003PLC015964 • GSTN 22AABCV9564E1ZB

Ref: VIL/BSE & NSE/2025-26/ November/61

Date: 25.11.2025

To,

The Manager (Listing)

**BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai(M.H.) - 400001

BSE Script Code:533576

The Manager (Listing)

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No.C/1, G Block,

Bandra-Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai-400051.

NSE Symbol: VASWANI

<u>Sub: Newspaper Publication – Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copies of the newspaper advertisements published on November 16, 2025, in The Free Press Journal (English edition, Mumbai) and Amrit Sandesh (Hindi edition, Raipur). These advertisements relate to the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the quarter ended September 30, 2025.

The aforementioned advertisements are also available on the Company's website at www.vaswaniindustries.com.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you

**Yours Sincerely** 

For, Vaswani Industries Limited

#### Sakshi Agrawal

(Company Secretary & Compliance officer)

Place: Raipur

Regd. Office & Factory: Bahesar Road, Near Cycle Park, Village Sondra, Siltara Phase-II, Raipur (C.G.) Pin - 493 221 Mob.: 09977403360/ 90, E-mail: jhaji@vaswaniindustries.com, saurabh@vaswaniindustries.com, store@vaswaniindustries.com,

Website: www.vaswaniindustries.com

# ऋषभ पंत ने हवा में उड़ाया वीरेंद्र सहवाग का 12 साल पुराना रिकॉर्ड



पहुंचा दी। इसके बाद पंत ने 42वें भारतीय टीम के स्टार ओवर की तीसरी गेंद्र पर एक औ विकेरकीपर बल्लेबाव त्रहम पंत ने इमदार छक्का जड़ा और टेस्ट फिकेट में रिकॉर्ड के साथ सिक्स की संख्य 92 पहुंचाई। बैसे, बापसी बंदी। पैत ने शांतिवार को टेस्ट इंशितस पर करत जाते तो रहिंच अफ़्रिका के खिलाफ केवाल बाग पंत्र एक्से ज्यादा सिक्स महाराज की गेंट पर छक्का बनाकर लगाने के मामले में सातवें स्थान पर एक कीर्तिमान स्थापित किया। पहुँचे। टेस्ट इतिहास में सबसे ऋगभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड ज्यादा छबके जमाने वाले भारतीय इंग्लैंड के टेस्ट करतान बेन स्टोक्स बल्लाबाज बन गए हैं। कोल्लाबाज के नाम दर्ज हैं। स्टोक्स ने 126 के ईंडन गार्डनर में जारी पहले टेस्ट छक्क जड़े हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व के दूसरे दिन ग्रहम पत ने केशब कचान और इंग्लैंड के मीजूदा कोच क दूसर, दिन प्रकार भा ने काजब काचान आर देशलंक के आनुदों कार्य महत्ताज द्वारा किए पार्यों के 38की अंड्रम मैलूमान 170 राकराने के मान ओवर की चीची गेंद्र पर मिड ऑफ इस खास लिस्ट में दूसरे स्थान पर में छक्का जमाकर इंतिहास रच हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिगाज दिया। बाद होक के बल्लेबान ने निकंडकीर बल्लेबान एक्स मेर्सेंद्र पारवणा का 12 साल पुराना गिलाफ़िस्ट 100 सिमस के साथ इस रिकॉर्ड तोडा। पंत से पहले भारत के लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। बता दें रिकार वाद्वा पर्या स्टार्स माराज के एक्ट माराज्य करनाय रहा नवाय है। सिक्स सबसे नवाद देर छक्के जड़ने कि दुनिया में केतल तीन ही का रिकार्ड वीरेंद्र सहयाग के गाम कल्लेवाज हैं, जिन्होंने टेस्ट प्रारूप दर्ज था। 2013 में संन्यास लेने से में 100 या ज्यादा छक्के जमाए हैं। पहले सहवाग ने टेस्ट फ्रारूप में 90 पंत इस समय सातवें स्थान पर हैं, छक्के जड़े थे। पंत ने प्रोटियाज टीम लेकिन उनके करियर को देखते हुए के खिलाफ अपनी पारी में पहला उन सभी को पीछे छोड़ने का लक्का जमाकर अपने टेस्ट करियर जानदार मौका है।

## नाम परिवर्तन

नाम परिवतन सर्वभाषपण को युनित किया नाता है कि में सलीप खान (SALIM KHAN) चिता-मापुक खान, निवादी सकत क्षेत्र 1444 स्ट्रीट नंकर 3. सुंदर नाम केट स्ट्रीट केट 3. सुंदर नाम केट कितामाड़ दिन 480223, यह तमक करता है कि मैंने अरान पुराना नाम सोहत्रमा, सालीप खान

#### नाम परिवर्तन

वारातव अनुविधार्षिय अधिकारि (प्रवस्व) सोहत्व वित्त-महत्त्व-मन्द्र्य-अंधिको (छा.) /इंग्लंड// जन्तु द्वाच एवं ग्राधारण को स्वीत वित्ता वार्गा है कि अवदेवस प्रणालिय को वार्गा कक्षाद्व रहित जाति प्रजाना गिकारों नाम परिवर्तन सर्वपायाण को प्रिंग किया जाता है कि में असार जाती असती है कि में असार जाती असती हिंदा से असता रहा के स्वाप्त करा के स्वाप्त करा के साम के प्रस्त कर के स्वाप्त कर के साम के प्रस्त कर के साम के सा पिता असार जली अंसारी रख लिया विता अंबार अस्ती राख दिखा है, हामार तीववित्त प्रमाण गाउँ में मेरा माना माने जाना जाता है। अब्द मुझे सम्माण जाता है। अब्द मुझे सम्माण जाता है। अब्द मेरा भाग सम्माण पर्योक्ता असारी विता असार जाती असारी से ही प्रदाण जातीं में हक आसार करते माना दिखा प्रमाण करते हैं। असार तेता समाचार प्रमाण से हास असार करते समाचार प्रमाण से हास असार करते समाचार प्रमाण करते ही हमारी

#### वगदलपुर न्याबालय तहमीलदार आरंग, जिला

सम्पूर छ.ग इंश्तबार

प्रकाशन कराना चाहता हूं जि सक्य में शपथ-पत्र प्रस्तुत हैं । (Ansar Ali Ansari)

. प्र.क. . त्य-१२१ वर्ष २०२५-३६ गम - पृहपुद्या प.ह.मं. २५

प्राम - पृत्युचा ५.इ.म. २५ पुरुद् द्वारा स्वयंत्रवारात को सृष्टिक किया जात है कि, अजेदक सुकताल उडरिया निवासी प्राम गुरुगुचा वडसीत अवस जिला सम्पुर द्वारा आमेदन प्रासुव कर प्राम गुरुगुचा ५.इ.स. २५ ग्र.स.स. तार संग पुरुष १८०१ है है होता न ग्रह्मकीय भूमि ग्रह्मरा ४३ रक्ष्या ३८,०४ है, में से ३ एकड़ भूमि आखंडन कियों कर हेतु निमेदन किया ग्रमा है।

अतर्म उनत संबंध में विस किसी भी र्वोक्त क संस्था को दाजा । आपनि ही नी श्रवता च संस्था का दाया ) अस्तात है ती है इस न्यायहरूप में विश्लोक 27,11,2025 एक अपनीत प्रस्तुत कर सकते हैं। नियस तिथि के बाद प्राप्त दाया आपत्ति पर कोई

ज्यान दिनांक यह ईश्तहार आब दिनांक 13.11.2025 को मेरे इस्ताक्षार एवं

तहसीलदार आरंग ( छ.ग. )

स्पिनर हावी होंगे। हालांकि, दूसरे दिन ही स्मिनरों का खींफदेखने को मिला है। मैंच के दूसरे दिन

कोलकाता के इंडन गार्डन्स कार्बिन बोध एक रन बनाकर खेल स्टेंडियम में भारत और साजब रहे हैं उसने भारत पर 63 रनों की अफ्रीका के बीच खोले जा 1हे पहले बढ़त ले लो हैं। साजब अफ्रीकी टीम टेस्ट मैंच में स्पिनमें के दखदबे की पहली पारों में 159 रनों पर हर हो उम्मोद जताई गई थीं, लेकिन गईथी। टीम झेंडपा भी अपनी पहली अनुमान था कि चौथे और पांचले पारी में बड़ा स्कोर नहीं कर पाईऔर 189 रन ही बना सकी। खराब रोजनी के कारण दिन का खेल जल्दी खत्म कर दिया गया। भारत ने दिन की जिनवार को कुल 15 विकेट गिरे शुरुआत एक विकेट के नुकसान पर जिसमें से 12 विकेट रिमनरों ने 31 रनों के साथ की। तीसरे नंकर पर लिए। नतीजा ये रहा कि साइश्र बाहेबाजी करने वाले वॉरिंगटन सुंदर



स्पिनरों ने कराई भारत की वापसी; द. अफ्रीका को 63 रनों की बढ़त

गिल को बॉट खेलते समय गर्दन में खिंचाव हुआ जिसके बाद वह बाहर

रनों के निर्वा स्कोर पर सुंदर साउथ राहुस को केशन महाराज ने आउट अप्रीकी स्पिनर सिस्मोन हामेर की गेंद कर दिया। वह 119 गेंदीं पर 59 रन पर आउट हो गए। कसान शुभमन जना सके। राहुस ने अपनी पारी में चार चीके और एक छका मारा। त्रमभ अग्रीका को अपनी दूसरी पारी खेलने पंत और रवींद्र बडेजा ने 27-27 रन जारना पड़ा, लेकिन हाल नहीं बदला।

सके। साउथ अफ्रीका की तरफ से हार्मर ने चार विकेट लिए। मार्की बानसेन ने तीन विकेट झटके। महाराज और योध के हिस्से एक-एक निकेट आया। भारत ने सावध अफ्रीका पर 30 रनों की बढ़त ले ली

गेंद पर आउट हुए। ध्रस्य चुरेल 14, एलबीडब्ल्यू हो गए। उनके बड़े से अक्षर पटेल 16 रन ही बना सके। सिर्फ 11 रन ही निकले। एडेन कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और मार्करम को रवींद्र जडेजा ने चार के जसप्रीत बुमराह एक एक रन ही बना निजी स्कोर पर आउट किया। विचान नावरम का समझ जड़जा न चार क निजी स्कोर पर आउट किया। विचान मुल्डर भी जड़ेजा का शिकार बने जो 11 रन ही बना पाए। जड़ेजा ने फिर टोनी खीं बॉर्जी (2) और ट्रिस्टन स्टब्स (5) को पर्वेतियन भेजा काइल सरेन अक्षर पटेल की गेंद्र प थी। दसरे ही दिन दसरे सत्र में साउथ ही गए। कलदीप ने यानसेन की आहर कर साहब अफ़ीका को सातव अफ्रीका में दिन का ओर प्रात विकेट में केरल राहुल का अच्छा साथ दिया. चले गए और दोजारा बाईबाजी कर से बनाए लेकिन अपनी पारी को बढ़ी. भारतीय रिगमों में उसके बांबाजी की तरफरो बढेजा ने बार, कुलदीप के नुकत्मान पर 93 रतों के साथ और स्कोर 75 तक पहुंचाया 29 नहीं आए। जानदार बाईबाजी कर रहे. पारी में तब्दील नहीं कर सके। पंत. को परेशान किया। चहले रिकल ने दो और चटेल ने एक विकेट लिया।

# एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा शतक जड़ने के बाद बाबर आजम बड़ा झटका, जोश हेजलवुड पहले टेस्ट से बाहर

**एओंसी** । नई दिल्ली

पर्थ में होने वाले पहले एरोज टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया की बड़ा झटका लगा है। मुख्य वेज गेंद्याज ज़रूका एता है। तुख्य वर्ष गुरुवाल जोश हेजलबुड हैमिस्ट्रिंग में श्रियंचल के कारण बाहर हो गए हैं। हेजलबुड किया है, जिन्होंने दो टेस्ट मैच खेले को गुरुवार को खिक्टोरिया के हैं। हेजलबुड को अनुपस्थित ने खिलाफ न्यू साठथ बेल्स के शेफीलड शीलड मैच से दर्द होने के बाद बाहर होना पड़ा था। बाद में हए स्कैन में अब उनकी चोट की पुष्टि हो गई है। आंस्ट्रेलिया ने हेजलबुढ और सीन एकॉट दोनों के कबर के रूप में माइकल नेसर को टीम में शामिल फिट सदस्य रह गए हैं। क्रिकेट



कसान पैट कमिंस भी पीठ की समस्या के कारण बातर हैं। इस प्रकार, मिशेल स्टार्क पहली पसंद के तेज गेंदबाज तिकड़ी के एकमात्र गया है कि जोश हेजलबड़ की आज दोबारा इमेजिंग की गई, विससे हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की पृष्टि हुई है। बुधवार को किए गए शुरुआती स्कैन में सपेशियों में खिंचाव नहीं था,

है। हेबलबुद को अनुपस्थित ने लेकिन आज को गई फलो-अप ऑस्ट्रेलिया की चयन संबंधी इमेजिंग में बोट की पृष्टि हुई है। चिंताओं को बढ़ा दिया है। क्योंकि शुरुआती इमेजिंग में कभी-कभी हल्की मांसपेज़ियों की चोटों को कम करके आंका जा सकता है। मतीजवन, हेजलबुड पर्थ नहीं जा पाएंगे और उन्हें पहले एशेंब टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया है।

प्रिया भोडे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षा

# ने किया विराट कोहली की नकल

📱 एजेसी । नईदिली

वंबर को पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 32वें जतक रावलपिंडी फ्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे बनडे में 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हए तीसरे नंबर पर बक्षेबाजी करते 102 रनी पर नाबाद पारी खेली।



के बाद विराट कोहलों के बादगार बश्न मनाया था। अफगानिस्तान के खिलाफ उस मैच में भी कोइली ने बाबर की तरह अंतरराष्ट्रीय फ्रिकेट में 83 प्रमोद मदशन द्वारा केंके गए 48वें पारियों के बाद शतक लगाया था प्रमाद न्युवा क्रिय कर पर निवय भागाय के बाद तकार उपना पास क्रीवर की पहली गेंद्र पर एक नव आबर ने शुक्रवार को शक्त बड़कर लेकर 100 रन पूरे किए। दो साल पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक वनडे के लेबे दवजार के याद अपना 20यां अतुकों के सदेद अनयर के स्किर्ड

बनाडे शतक पूरा करने के बाद बाबर की बराबरी कर ली। पाकिस्तान के आजम ने बिसाट कोहली के जरन लिए अपने 14 साल के चनडे हुए 102 मा ने वाबार में प्राप्त करिया है। कोंब पर एसते हुए उन्होंने 119 गोंदी आजम ने बिकाट कोहलों के जमन लिए अपने 14 साल के बनाई का सामना किया और आठ चींके मनाने की नकल की। बता दें कि 8 करियर में अनवर ने 247 बनाठे लगाए। पूर्व पाक कहान घावर ने सितंबर 2022 को दुखई में स्तेती और 20 शतक बनाए।

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सृचित किया जात है कि मैं लीलम चंद वेन (LILAM CHAND JAIN) पिता स्व. तामचंद जैन तम 62 वर्ष निवासी सकान मं. 18, गवली पारा, बार्ड नं, 32, दुर्ग तहसील ब जिला दुर्ग पह शपश करता है कि मैंने अस्पन

यह शफ्त करात हूं का बन पुराना नाम लीलम चंद को ल्याग कर नवा नाम लीलम चंद नैन (LILAM CHAND JAIN) पिता स्व. गाराचंद जैन सम्र लिया हूं। जतः आग में मुझे समस्त शासकीय, अर्थतासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे तिराम्प्र लिया हूं। अतः आज से मुझे समस्य जासकीय, अर्थशामकीय व अन्य उत्तावेशी से मेरे गए नाम सालीम जान (SALIM KHAN) किता-मासूक खान से ही जाना पड़चाना जाले। नए नाम लीलम बंद जैन (LILAM CHAND JAIN) पिता स्व गाएचंद जैन से ही जाना पहचाना

शपथकती सर्लाम खान (SALIM KHAN) पिता-मासुक खान, निवासी-मकान नंबर 1444 स्ट्रीट नंबर 3, सुंदर नगर वेस्ट कोहका, सुपेला पिलाई जिला दुगे छनोसगढ़ पिन 490023

( रातस्य ) पोइला जिला-मोइला-मानपुर-अं.चीकी

ावालय अनुविधानीय अधिकारी ( ग. ) पहारापुँद, जिला पहारापुँद ( छ.ग. ) महासमुंद्र, विशंक राज्य (१८८८) हाम-तुमार्थिय र ५ ४० दल्डेड्यर दुवे पिता नागान्य दुवे विवाहर त्राव सुमर्थिय तहसीता में जिला महासमुद्ध (स

अनुविभागीय अधिकागी ( ग. बहुससुन्द

मान चारचाना में प्रकास चन्न कन्ना पिता मोतानाथ टाकुर आयु-81 नर्ग, निनाती-पेड्रोल पंत के पीठे खड़क 07, जोन डे, न्यू जारह नगर, बार्ड में 52 हुगें वड, क निता दुग छ.स. का उसने बाला हूँ। यह कि मेरा नाम Q.E. को रहन वाली हूं। वह कि पत नात क पता कर्मकाळ्डुकर है। वे भुट्यूच गौरांग पर L.M.(E) No.87022 P.P.O. 401198200627 है। के पूरुष्ट कोचना पर L.M.(E) No.87022 P.P.O. 401198200627 पतिय

नासना परम कारणना सुम्बद्द का रका हम P.P.O. 401198200627 में मेरा नाम प्रकार। चन्द्र टाकुर दर्ज किया जाये जिसके लिये में यह रायश पत्र पेश कर रहा

ा की ज्यास लाल जाति गोड् चार्चागोर्क में जी जामगात्र सम्बोता

शपध पत्र गणाना ग्रेमा

// ज़ायबाज //
मैं मनीज कुमार साह पिता औ दौलत राम साह उस 47 वर्ष जाति तेली (पित्कामां) निवासी कोरख तह, व निला कोरखा (छ.ग.) का हूं। यह कि मैं उपरोक्ता पने पर अधाई रूप से निवास करती हूं। मेरा आधार व् निवास करता हूं। मरा आधार न, 7725 5706 5772 हैं। यह कि मेरी पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में पिता का नाम मनीज साहु त्रृटिक्श लिखा गया है, जबकि सही नाम मनीज कुनार साहु है। यह कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में पिता के पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में पक्ष के नाम पन्त्रेण कुमार साहु सही नाम करवाना बाहता हूं। यह कि मैं मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण एक के सर्वश्य में उदन सम्प्रथ पत्र निष्मादित किया गया है। जिसे सर्वेशित कार्यालय/विभाग साहय स्वरूप प्रस्तुत करना है।

शपतकर्ता मनोज कुमार साहू कोरबा जिला कोरबा ( छ.ग. )

# सेमीफाइनल में केंटा निशिमोता से हारे लक्ष्य सेन, जापान मास्टर्स में सफर हुआ समाप्त प्राचित्रं के साम्युवित्रं विन्तं वित्रं के साम्युवित्रं वित्रं के स्वावं वित्रं के साम सामान्य के सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य के सामान्य सामान्

कुमामोतो,(ए) । भारत के स्टार एकल खिलाडी लक्ष्य सेन का जापान मास्टर्स बैडीमंटन ट्रनॉमेंट में शानदार सफा सेमीपाइनल में समाप्त हो गया है। लक्ष्य को सेमीफडनल में जापान के केंग विशिधीन में रहा फिनी जापान के कहा ानशमाता से हार मिला और वह दुर्नामेंट से बाहर हो गए। निशिमोता ने भारतीय हाटलर को 77 मिनट में तीन गेम तक चले मुकाबले में हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। सातवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य निशिमोता में 19-21, 21-14, 12-21 में हार गए। सेन का अपने इस प्रतिद्वरी के रिवलाफ रिकॉर्ड अच्छा था. लेकिन



ारितराज १९८८ जाण्य ५ १९९४ में अतित गेम में मत्तित्वों के कारण बहु हुए निर्णायक मेम तक का सक तम बीच या लेकिन जापानी खिलाड़ी ने इसकी बेहता करने में नाकाम रहें। किया लेकिन तीमरें गेम में बहु पूरी दर्शकों के आपर समर्थन के बीच वैर्थ राष्ट्रमंडल खेलों के वैषियन तस्त्व ने तरह से रूप में नहीं दिखे यह बनाए रखा और आखिर में पहलत में शुरुआती गेम में मिली हार से उपरते मुकाबला दो चरावरी के खिलादियों के जगह चनाने में सफल रहे।

## VASWANI INDUSTRIES LIMITED CIN:L28939CT2003PLC015964 Regd. Office :BAHESAR ROAD, NEAR CYCLE PARK, VILL -SONDRA PHASE-II, INDUSTRIAL AREA, SILTARA RAIPUR (C.G.) 493221

	24030 H	- V	Fort	he Quarter E	eded	For the Half	Year Ended	Year Ended
S. NO.	Particulars		39-Sap-25	30-Jun-25	30-Sep-24	30-Sep-24	36-Sep-24	31-Mar-2
-				(Unaudited)			(Unaudited)	
1	Revenue from operations			11,428.10	10,216.11	19,929.13	19,389.86	41,153.59
11	Other income		23.87	30.56	21,19	54,43	53.10	237,17
	Total Income from Operations	H	8,524.90	11,458.66	10,237,31	19,983.56	15,442.97	41,400.78
IV	EXPENSES		Secretary of	Serveral.	Survey	Sections!	OBSTANCE OF	STONE OF
	a. Cost of materials consumed		5,875.43	7,245.77	7,926.59	13,121.20	14,332.76	30,082.44
	b. Cost of traded goods sold		1,584.67	1,600.43	275.21	3,185.10	994.21	3,154.66
	c. Changes in inventories of finished goods		(1,282.42)	(21.61)	(158.31)	(1,304.03)	271.87	(497.35)
	d. Employees benefits expenses		452.14	314.04	302.89	776.18	562.99	1,301.23
	e. Finance costs		341.06	317.18	124.83	658.24	233.76	799,11
	f. Depreciation and amortisation expenses		144.17	147.40	94,17	291,57	187.46	439,68
	g. Other Expenses	7000	1,236.48	1,319.75	1,273,77	2,556.23	2,076.29	4,441.17
	Total expenses (a+b+c+d+e+f+g)	N	8,361.53	10,922.95	9,838.96	19,284.49	18,589.35	39,730.97
V	ProfitLoss before exceptional items and tax Exceptional items	(III-N)	163.37	535.71	398.35	699.07	753.62	1,669.80
•	a) Write off of Nat Credit Entitlement		- 2		90	0.5	- 62	186.04
	b) Loss on buy back of share held as investment.							164.91
	Total Exceptional Items	w						352.95
VII	Profit oss before and tax	WW	163.37	535.71	398.35	699.07	753.62	1,316.85
	Tax Expense	×						- 10.000
	a) Current Tax		(39.98)	55.02	172.16	15.04	283.30	222,43
	b) Deferred Tax		69.02	(66.38)	(6.95)	2.64	(14.43)	233.96
(X		WAVE	134.32	547.95	233.14	681.38	484.75	860.43
×		ere ta	IOCAL	341.50	200.14	001120	404.70	900,40
^	A (I) thems that will not be reclassified to							
	profit and loss:							
	(a) Ramassurement Gain/Loss) on post -							
	employment defined benefit plans		20	55		1000	- 9	(4.16)
	(b) Fair value changes of investment in equity		0.00	(27.40)		(27.40)		30.97
	(ii) Income tax relating to items that will not		9.00	(group		(ALMO)	15	30.20
	(ii) income tex relating to nexts treat will not. be reclassified to profit or loss		0.00	3.42		3.42	1.0	(3.87)
	B. (i) tems that will be reclassified to profit		0.00	242	- 1	3,442		(301)
	B. (i) thems that will be reclassified to profit		1 5	100	33		8	
	(ii) Income tax relating to items that will be		- 8	37		.00		
	(ii) income tax relating it nexts trax will be reclassified to profit or loss		- 60	509	1 88	1	38	
			(0.00)	(23.97)		(23.97)		22.94
-	Total other comprehensive income for the period	DI+X	134.32	523.59	233.14	657.41	484.75	883.37
A.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit (Loss) and Other comprehensive Income for the period)	D.+X	134.52	262,09	233.14	621,41	404.75	863,37
YI	Paid-up Share Capital   par value Rs. 10/- each		1					
~	fully paid up)		3294 52	3,134,52	3,000,00	3.294.62	3,000,00	3,134,52
ve.	Earnings per equity share (Par value Rs.10 each)		3234.02	0,134,02	- appearable	3,234.02	2,000.00	0,104.00
ARI	Earnings per equity share (Par value ics. 10 each) ili Basic		0.42	1.75	0.78	2.14	1.62	2.81
	ii) Disind		0.42	1.75	0.78	2.14	162	2.01

(seal)

DIN: 09517381

Regd Office : Block No 404, 4th Floor, Sagar Tech Plaza, B Wing,

Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri East-400072 CIN: L15100MH2015PLC269095

**EXTRACT OF THE STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULT** FOR THE QUARTER ENDED 30.09.2025 (Rs. In Lakhs, except per share data

MRC

	0	Quarter ended			Half Year Ended			
Particulars	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025		
	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-audited	Un-audited	Audited		
Total Income from Operations	502.49	478.12	384.53	980.61	628.69	3301.81		
Profit /(Loss) from operation before exceptional items and Tax	1.12	12.75	14.67	13.87	21.93	120.00		
Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	1.12	12.75	14.67	13.87	21.93	120.00		
Net Profit/(Loss) from continuing operations	1.24	9.43	8.75	10.67	16.01	87.60		
Reserves excluding revaluation reserve	-	-	-	-	-	1016.33		
Paid- up equity share capital (Face Value of Rs.10/- each)	2048.74	2048.74	2048.74	2048.74	2048.74	2048.74		
Basic and Diluted Earnings per Share (of Rs.10/- each)								
(a) Before Extraordinary Items	0.01	0.03	0.04	0.05	0.08	0.04		
(b) After Extraordinary items	0.01	0.03	0.04	0.05	0.08	n n4		

EXTRACT OF THE CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30.09.2025 (Rs. In Lakhs, except per share data)

	Q	Quarter ended			Half Year Ended		
Particulars	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025	
	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-audited	<b>Un-audited</b>	Audited	
Total Income from Operations	525.98	498.77	384.53	1024.76	628.69	3387.75	
Profit /(Loss) from operation							
before exceptional items and Tax	6.54	18.12	14.67	24.66	21.93	149.98	
Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	6.54	18.12	14.67	24.66	21.93	149.98	
Net Profit/(Loss) from continuing operations	5.56	13.73	8.75	19.29	16.01	110.09	
Net Profit/(Loss) for the period	3.44	11.63	8.75	15.07	16.01	99.07	
Reserves excluding revaluation reserve				-	-	1016.33	
Paid- up equity share capital	2084.74	2084.74	2048.74	2048.74	2048.74	2048.74	
(Face Value of Rs.10/- each)							
Basic and Diluted Earnings per Share							
(of Rs.10/- each)							
(a) Before Extraordinary Items	0.02	0.03	0.04	0.07	0.08	0.04	
(b) After Extraordinary items	0.02	0.03	0.04	0.07	0.08	0.04	
The above is an extract of the detailed format of S	tandalone and	Consolidate	d Unaudited I	Financial Res	ult for the Qu	arter Ended	

30th September 2025, filed with BSE under regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Result for the Quarter Ended 30th September 2025 are available on stock exchange website (www.bseindia.com) and company website (www.mrcagrotech.com) BY ORDER OF THE BOARD

Place: Mumbai Ashok Kumar Singl Date: 14/11/2025 Chairman & CEO

#### VASWANI INDUSTRIES LIMITED CIN:L28939CT2003PLC015964

Regd. Office :BAHESAR ROAD, NEAR CYCLE PARK, VILL -SONDRA PHASE-II, INDUSTRIAL AREA, SILTARA RAIPUR (C.G.) 493221

Statement of Un-audited Standalone Financial Results for the Quarter Ended 30.09.2025 (Rs. in Lakhs For the Quarter Ended For the Half Year Ended | Year Ended **Particulars** 30-Sep-25 30-Jun-25 30-Sep-24 30-Sep-24 30-Sep-24 31-Mar-25 NO Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 'Unaudited) (Audited) I Revenue from operations 8.501.03 11.428.10 10.216.11 19.929.13 19.389.86 41.163.59 23.87 30.56 54.43 53.10 237.17 21.19 Other income **Total Income from Operations** 1+11 8,524.90 11,458.66 10,237.31 19,983.56 19,442.97 41,400.76 IV EXPENSES 7.245.77 7.926.59 14.332.76 30.082.4 Cost of materials consumed 13.121.20 5.875.43 . Cost of traded goods sold 1.584.67 1,600.43 275.21 3,185.10 994.21 3,164,6 . Changes in inventories of finished goods (1,282.42) (21.61)(158.31)(1,304.03) 271.87 (497.35 d. Employees benefits expenses 462.14 314.04 302,69 776.18 592.99 1,301.23 . Finance costs 341,06 317.18 124.83 658,24 233,76 799.1 439.68 f. Depreciation and amortisation expenses 144.17 147.40 94.17 291.57 187.46 1,236.48 1,319.75 1,273.77 2.556.23 2,076.29 4,441.17 a. Other Expenses Total expenses (a+b+c+d+e+f+g) 8,361.53 10,922.95 9,838.96 19,284.49 18,689.35 39,730.97 Profit/Loss before exceptional items and tax (III-IV) 163.3 535.7 699.0 753,62 1.669.8 VI Exceptional items 188.04 a) Write off of Mat Credit Entitlement 164.91 b) Loss on buy back of share held as Investment Total Exceptional Items 352.95 535.71 699.07 753.62 Profit/Loss before and tax V-VI 163.37 398.35 1,316.85 VIII Tax Expense (39.98)55.02 172.16 15.04 283.30 222.43 a) Current Tax o) Deffered Tax 69.02 (66.38)(6.95)2 64 (14.43)233.99 233.14 484.75 Profit/(loss) for the period VII-VIII 134.32 547.06 681.38 860.43 Other comprehensive income A. (i) Items that will not be reclassified to profit and loss: (a) Remeasurement Gain/(Loss) on post employment defined benefit plans (4.16)(27.40) (b) Fair value changes of investment in equity 0.00 (27.40)30.97 (ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss 0.00 3,42 3.42 (3,87 B. (i) Items that will be reclassified to profit or loss (ii) Income tax relating to items that will be eclassified to profit or loss (23.97)(23.97)(0.00)22.94 Total other comprehensive income for the period Total Comprehensive Income for the period IX+X 134.32 523.09 233.14 657.41 484.75 883.37

> 0.42 1.75 0.78 BY ORDER OF THE BOARD FOR, VASWANI INDUSTRIES LIMITED

3.134.62

1.75

3,000.00

0.78

3.294.62

2.14

2.14

3,000,00

1.62

1,62

3.134.62

2.81

2.81

3294.62

0.42

Sd/- SATYA NARAYAN GUPTA YASHWANT VASWANI Place: Raipur Whole Time Director DIRECTOR (Seal) Date: 14.11.2025 DIN: 01627408 DIN: 09517381

Regd. Office: ICICI Bank Limited, Landmark Race Course Circle, Vadodara- 390007

Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) /lumbai- 400051 Branch Office:Office No. 201-B. 2nd Floor, WIFLIT Park, Road No.1

Plot No. B/3, Wogle Industrial Estate, Thane (West), Thane- 400604 Notice for Disclosure of Legal Heirs of Deceased Borrower PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Home Loan QZKLY00005016593 (Credit facility) was granted to Maya Suresh Gaikwad along with the deceased Suresh Sopan Gaikwadby ICICI Bank Ltd. (The Bank). The said credit facility is secured by Maya Suresh Gaikwad by creation of the security interest by way of mortgage, with respect to the property situated at Flat No-103, on 1st Floor, Kulgaon, Nr Ganesh Mandir, 63/10, Thane-401208. We would like to inform you that the demise of Suresh Sopan Gaikwad has come to our knowledge during field visits conducted by the Bank officials and by telephonic communications on the registered contact numbers. In this regard, letter dated November 11,2025 was previously sent to the registered addresses of the Borrowers and the deceased Suresh Sopan Gaikwad, for providing information about the Legal Heirs of the deceased Borrower deceased Borrower.

deceased Borrower.

Therefore, this Notice is hereby given for sharing details of the Legal Heirs of the deceased Suresh Sopan Gaikwad with supporting documents for updating the Bank's records, within <1.15 days of publication of this Notice. You may submit the above-mentioned details to Mr./Ms Nilesh Ranadive by visiting Office No. 201-B, 2nd Floor, WIFI IT Park, Road No.1, Plot No. B/3, Wagle Industrial Estate, Thane (West), Thane-400604.

Date: November 15, 2025 Place : Kalyan & Mumbai

Regd. Office: ICICI Bank Limited, Landmark, Race Course Circle, Vadodara- 390007 Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai- 400051.

Branch Office:Office No. 201-B, 2nd Floor, WIFI IT Park, Road No.1, Plot No. B/3, Wagle Industrial Estate, Thane (West), Thane- 400604 Notice for Disclosure of Legal Heirs of Deceased Borrower PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Home Loan LBKOP00001028724 (Credit facility) was granted to Usha Shahaji Chandnshiv along with the deceased Shahaji Kacharu Chandanshiv by ICICI Bank Ltd. (The Bank). The said credit facility is secured by Usha Shahaji Chandnshiv by creation of the security interest by way of mortgage, with respect to the property situated at Milkat No.85/2, Kolpewadi Road, A/ Phingoli, Tal. Kopergaon Dist Ahmednagar, Kopargaon Ahmednagar-423601.

We would like to inform you that the demise of Shahaji Kacharu Chandanshiv has come to our knowledge during field visits conducted by the Bank officials and by telephonic communications on the registered

the Bank officials and by telephonic communications on the registered contact numbers. In this regard, letter dated November 11, 2025 was previously sent to the registered addresses of the Borrowers and the deceased Shahaji Kacharu Chandanshiv, for providing information about the Legal Heirs of the deceased Borrower.

Therefore, this Notice is hereby given for sharing details of the Legal Heirs of the deceased Shahaji Kacharu Chandanshiv with supporting documents for updating the Bank's records, within <15> days of

publication of this Notice. You may submit the above-mentioned details to Mr./Ms Shreekant Chandratre by visiting Office No. 201-B, 2nd Floor, WIFI IT Park, Road No.1, Plot No. B/3, Wagle Industrial Estate, Thane (West), Thane- 400604. Date: November 15, 2025 <SD> Authorised Officer

For ICICI Bank Ltd.

Regd. Office: ICICI Bank Limited, Landmark Race Course Circle, Vadodara- 390007 Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Branch Office: Office No. 201-B, 2nd Floor, WIFI IT Park, Road No.1,

Plot No. B/3, Wagle Industrial Estate, Thane (West), Thane 400604 Notice for Disclosure of Legal Heirs of Deceased Borrower

<u>PUBLIC NOTICE</u>

Notice is hereby given that Home Loan TBPUN00006863210 (Credit facility) was granted to ARCHANA KIRAN DATIR along with the deceased KIRAN NAMDEV DATIR by ICICI Bank Ltd. (The Bank). The said credit facility is secured by ARCHANA KIRAN DATIR by creation of the security nterest by way of mortgage, with respect to the property situated at FLAT NO 1001, 10TH FLOOR STELLA PHASE NO 1 WING D2NEAR DATTA MANDIR, GAT NO 216 2 MOSHI DUDALGAON, Pune - 412105.

We would like to inform you that the demise of KIRAN NAMDEV DATIR has come to our knowledge during field visits conducted by the Bank officials and by telephonic communications on the registered contact numbers. In this reaard. letter dated November 11,2025 was previously sent to the registered addresses of the Borrowers and the deceased KIRAN NAMDEV DATIR, for

providing information about the Legal Heirs of the deceased Borrower. Therefore, this Notice is hereby given for sharing details of the Legal Heirs of the deceased KIRAN NAMDEV DATIR with supporting documents for updating the Bank's records, within <15> days of publication of this Notice. You may submit the above-mentioned details to Mr./Ms DILIP BURUTE by visiting Office No. 201-B, 2nd Floor, WIFI IT Park, Road No. 1, Plot No. B/3, Wagle Industrial Estate, Thane (West), Thane 400604.

Date: November 15, 2025 <SD> Authorised Officer Place : Pune For ICICI Bank Ltd.

Pup Pup

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

Assets Recovery Management Branch (ARMB), MUMBAI CITY:-6th Floor, UBI Building, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai-400001, email: cs6041@pnb.co.in

# **PUBLIC NOTICE**

This is to inform the General Public that Punjab National Bank (Hereinafter referred "the Bank") holds a prior charge over the immovable property described below, created by the Borrower Mr. Krishna Pandurang Lad, in favor of the Bank as security for the loan/credit facility extended to him.

The Bank hereby notifies the general public, including any third parties, banks financial institutions, or other entities, that the Said Property is encumbered with a prior charge in favor of the Bank. Any dealings, transactions, encumbrances, transfers mortgages, leases, or any other actions involving the Said Property by any third party, bank, financial institution, or any other entity without the prior written consen of the Bank shall be null and void and shall not bind the Bank in any manner.

Furthermore, the Bank shall not be liable for any consequences arising from any such unauthorized actions or dealings with the Said Property. The Bank reserves all rights and remedies under applicable laws including Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act), and other relevant statutes

This notice is issued in the interest of the general public to prevent any unauthorized dealings with the Said Property and to ensure that all parties are aware of the Bank's

For any inquiries, please contact the undersigned or the concerned branch of Punjab

# **Description of the Property**

All that piece and parcel of immovable property being Flat No. 202, 2nd Floor, 'A' Wing, New Evershine Garden CHSL, EG-10, Krishna Shrushti, Diwanman, Vasai (West), Taluka Vasai, District Palghar - 401208, Maharashtra.

Authorised Officer Punjab National Bank



[Comprising Profit (Loss) and Other comprehensive

XII Paid-up Share Capital (par value Rs. 10/- each

XIII Earnings per equity share (Par value Rs.10 each

Income for the period1

fully paid up)

) Basic

ii) Diluted

# **CRESSANDA RAILWAY SOLUTIONS LIMITED** (Formerly known as Cressanda Solutions Limited)

Regd. Office: 2nd floor, Innovative Info Park Banderkarwadi, Service Road Western Express Highway, Jogeshwari East, Mumbai - 400060  $\textbf{E Mail:-} info@\ cress and a.com\ , \textbf{Website:-}\ www.cress and a.com$ CIN: L73100MH1985PLC037036

### **EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2025

						(Rupees in La	akhs except EPS)	
			STANDALON		CONSOLIDATED			
SR.	Particulars		Quarter Ende	d	Half Yea	r Ended	Year Ended	
		30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	30.03.2025	
		Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited	
1	Total Income from Operations	198.59	465.06	8.29	198.59	1876.48	3695.87	
	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-358.24	-44.15	-524.71	-358.24	-271.01	39.68	
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-358.24	-44.15	-524.71	-358.24	-271.01	54.08	
4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-358.24	-44.15	-381.10	-358.24	-199.59	40.08	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive Income (after tax)	-358.24	-44.15	-381.10	-358.24	-199.59	40.08	
6	Equity Share Capital (Face value of Re.1/-)	4227.35	4227.35	4227.35	4227.35	4227.35	4227.35	
	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -	-	-					
′	1. Basic:	-0.085	-0.010	-0.090	-0.085	0.047	0.009	
	2. Diluted:	-0.085	-0.010	-0.090	-0.085	0.047	0.009	

# Notes:

. The above is an extract of the detailed format of quarterly/half yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirments) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly/ Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange webiste www.bseindia.com and on the company website www.cressanda.com

For and on behalf of the Board of Directors

Arun Kumar Tyagi **Managing Director** DIN: 05195956

# Mid India Industries Limited

CIN: L17124MP1991PLC006324

Regd. Office: Textile Mill Area, Station Road, Mandsaur-458 001 (M.P.) Phone: 07422-234999 Corporate Office: 401, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore-452 003 (M.P.) E-mail: csmidindia@gmail.com, Website: www.midindiaindustries.com

### Extract of Un-audited Financial Results for the Quarter & Half Year ended on September 30, 2025

{Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015} (Amount In Lakhs Except EPS)

		Quarter		Year to Date	
S. No.	Particulars	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2025	
NO.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1	Total Income From Operations (Net)	132.51	154.81	281.98	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	-0.81	-1.21	1.30	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (After Exceptional and / or Extraordinary items)	-0.81	-0.77	1.30	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	-0.81	-0.77	1.30	
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	-0.81	-0.77	1.30	
6	Equity Share Capital	1630.00	1630.00	1630.00	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)	_	-	-	
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic 2. Diluted	0.00 0.00	0.00 0.00	0.01 0.01	

Note: The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results for the Quarter and

Half Year ended September 30, 2025 is available on the website of the Company www.midindiaindustries.com and Stock Exchange i.e. www.bseindia.com

Place: Indore, Date: 14.11.2025

Date - 14.11.2025

Place - Bhilai



For Mid India Industries Limited Sd/-Sanjay Singh Chairman & Managing Director DIN: 01548011

## **HEM HOLDINGS AND TRADING LIMITED**

CIN: L65990MH1982PLC026823

Registered Office: Unit No. V-348, The Centrium, 3rd Floor, Kurla Kirol, L.B.S. Marg, Kurla West,

Kurla, Mumbai, Maharashtra - 400070 | Email:compliance@hemholdings.com extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th September, 2025

SI		C	Quarter ende	d	Half-Year Ended		Previous Year ended	
- 1	Particulars	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.202	
ю		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
	Total Income from Operations	21.74	20.71	6.66	42.45	9.66	37.46	
2	Net Profit/(Loss) from operations before							
	exceptional items and tax	19.61	15.68	3.25	35.29	0.48	(120.31	
3	Net Profit/(Loss) before tax	19.61	15.68	3.25	35.29	0.48	(120.31	
ļ	Net Profit/(Loss) for the period after tax	19.61	15.68	3.25	35.29	0.48	(120.3	
5	Total Comprehensive Income for the period							
	(Comprising Profit/(Loss) and other							
	Comprehensive income for the period)	19.61	15.68	3.25	35.29	0.48	(96.03	
;	Paid-up equity share capital	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.0	
	(Face Value of the Share shall be indicated)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.0	
١.	Reserve excluding Revaluation Reserve						191.8	
1	Earnings Per Share of Rs 10/- each							
	(not annualised):							
	a) Basic	8.17	6.53	1.35	14.71	0.20	(50.13	
	b) Diluted	8.17	6.53	1.35	14.71	0.20	(50.13	

The above results were reviewed by the Audit Committee in its meeting held on held on 14th November 2025 and approved by the Board of Directors in its meeting held on 14th November 2025

The Main Business of the company is investment activity , hence there are no separate reportable segments. The figures for the previous periods have been regrouped, wherever necessary, to make them comparable with the current period.

The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the financial Results for the Quarter ended 30t

September 2025 The above results are also available on Company website www.hemholdings.com and also on the website of BSE.



For HEM HOLDINGS & TRADING LIMITED (SANGEETA KETAN SHAH DIRECTOR DIN-05322039

# SPICE ISLANDS INDUSTRIES LIMITED

(Formerly known as Spice Islands Apparels Limited) CIN:L11045MH1988PLC050197

Regd.Office: Unit 3043-3048, 3rd Floor, Bhandup Industrial Estate Pannalal Silk Mills Compd, L.B.SMarg, Bhandup-W, Mumbai-400078

Statement of Unaudited Financial Results For the Quarter & Half year Ended Sent. 30, 2025

					(F	Rs. In lakhs)
	(	Quarter Ende	d	Half yea	r Ended	Year Ended
Particulars	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Income						
Total Revenue From Operation	246.33	201.20	16.51	447.53	40.88	297.8
Total Expenses	168.37	168.08	45.63	336.44	64.45	185.6
Profit/(Loss) before Tax	77.96	33.12	(29.11)	111.09	(23.56)	112.19
Profit/(Loss) for the year	78.14	33.28	(92.77)	111.42	(87.22)	47.7
Total Comprehensive Income for the period	77.99	33.13	(92.77)	111.12	(87.22)	48.1
Paid up Equity Share Capital (Face value ₹ 10 per share)	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.0
Earnings per share (Equity shares ,par value Rs.10/- each) (not annualised)						
Basic	1.82	0.77	(2.17)	2.59	(2.03)	1.1
Diluted	1.82	0.77	(2 17)	2 59	(2.03)	11

Particulars	Quarter Ended Half year Ended					Year End
	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.20
Segment Revenue						
- Income from operations						ĺ
a) Renting/Hire of electric Vehicle	16.58	8.77	-	25.35	-	3
b) Food and beverages	35.23	32.06	-	67.29	-	49
c) Hospitality business	122.09	151.74	10.03	273.83	34.40	24
Net Sales/Income	173.90	192.57	10.03	366.47	34.40	7
Segment results						
(Profit before Interest and Taxation from						ĺ
each segment)						ĺ
a) Renting/Hire of electric Vehicle		(0.00)				
b) Food and beverages	10.78	(2.93)	-	7.85	-	(5
c) Hospitality business	(16.67)	(26.86)	-	(43.53)	-	(12
-,,,	27.30	60.09	(15.06)	87.39	8.93	
	21.41	30.30	(15.06)	51.71	8.93	(43
Less: Finance costs	(0.79)	(0.74)	(6.44)	(1.53)	(0.74)	(5
Less: Other un-allocable expenditure net of	57.33	3.57	(7.62)	60.91	(31.75)	16
un-allocable income	07.00	0.07	(1.02)	00.01	(310)	
	77.96	33.12	(29.11)	111.09	(23.56)	112

Statement Of Assets And Liabilities As (Amount in Rupees Lakhs, except share unless otherwise state	and per shar	

Pa	rticulars	As at 30.09.2025 (Unaudited)	As at 31.03.2025 (Audited)	
	ASSETS	,		2
Α	Non-Current Assets			ı
	a) Property, Plant and Equipment     b) Financial Assets	223.50	75.53	
	i) Other Financial Assets	25.71	0.37	ı
	c) Deferred Tax Assets (Net)	0.38	-	ı
	d) Other Assets	87.43	230.93	3
В	Current assets	337.03	306.83	3
ь	a) Inventories	16.44	12.86	ı
	b) Financial Assets	-		П
	i) Current Investments	0.33	0.35	ı
	ii) Trade Receivables	104.75	118.12	1
	iii) Cash and Cash Equivalents	85.13	27.81	1
	iii) Bank Balances Other than (ii) above	6.28	6.28	ı
	iv) Loans	0.27		ı
	v) Other Financial Assets	64.75 26.55	5.00 18.37	ı
	c) Other Current Assets	13.14	12.13	1
	d) Current income tax assets (Net)			4
		317.64	200.92	ı
	EQUITY AND LIABILITIES Equity	654.67	507.75	
Α	a) Equity Share Capital		400.00	5
^	b) Other Equity	430.00	430.00	ľ
	b) other Equity	-83.18	(194.30)	П
	Liabilities	346.82	235.70	П
В	Non-Current Liabilities			П
	a) Financial Liabilities			6
	i) Borrowings		_	1
	b) Provisions	2.26	0.86	ı
	c) Deferred Tax Liabilities (Net)		0.05	П
С	Current liabilities	2.26	0.91	7
C	a) Financial Liabilities i) Borrowings			
	i) Borrowings ii) Trade Payables - Amount due to Micro, Small & Medium Enterprises	198.62	127.74	
	- Amount Due to Others		8.68	
	iii) Other Financial Liabilities	36.73	3.34	
	b) Other Current Liabilities	31.54	96.61	
1	c) Provisions	36 57	32.64	1

36.57

305.60

654.67

32.64

271.15

507.75

The above results for the quarter/Half year ende Sept.30, 2025 have been reviewed by the Audit Committee &approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 14, 2025. The Statutory Auditors of the Company, have carried out a limited review of the above financia results for the guarter ended Sept. 30, 2025 & hav issued an unmodified report on these results.

The above results are prepared in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as

prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 and notified by the Ministry of Corporate Affair under the Companies (Indian Accounting Standards Rules,2015 (as amended) & other accounting principles generally accepted in India.

"On the Basis of the approval of the Shareholders at its Annual General Meeting held on August,19, 2024, the company has alloted 19,33,324 share warrants at a price of Rs. 45 per warrant including premium of Rs. 35 per warrant on preferentia basis on October, 30, 2024. These share warrants will be converted into equity shares in the ratio of 1:1 as per the terms of the offer. The Company has received amount of Rs. 217.50 lakhs as on october 30th, 2024 as 25% of the consideration for share warrants as per the terms of the offer. The Company operates in a three business segments namely i.e. Renting/Hire of Electric vehicle (EV) , Food and Beverages and Hospitality business. As such disclosure to segment wise revenue and results is given in Annexure -1

The figures for the quarter ended ended Sept 30, 2025 are arrived at as the difference between unaudited figures in respect of the Half year ended Sept. 30, 2025 & the unaudited published figure for the Quarter ended June 30, 2025

Figures relating to the previous period(s) / year have been regrouped / rearranged, whereve necessary, to make them comparable with those of the current period / year

The Board of Directors in its meeting held on November 14,2025 have declared 1st Interim Dividend of Rs.0.50 per share (Face Value of 10.00 per share) for the financial year 2025-26. The Record date for the purpose of determining the entitlement for payment of interim dividend is fixed as November 21, 2025.

For Spice Islands Industries Limited Formerly known as Spice Islands **Apparels Limited** SD/

Faraaz Chapra Place: Mumbai Director & CFO (Din No: 07854286 Date: 14.11.2025

Place : Mumbai Dated: 14th November, 2025